



प्रेस नोट जनपद खीरी

दिनांक 18.12.20

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद में अपराध नियंत्रण व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा निम्न कार्यवाही की गयी:-

थाना निघासन पुलिस द्वारा जिलाबदर अभियुक्त रूप सिंह को अवैध शस्त्र कारतूस सहित किया गया गिरफ्तार





प्रेस नोट कोतवाली निघासन

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में जनपद स्तर पर चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति व वांछित / वारंटी / जिला बदर अभियुक्त की गिरफ्तारी अभियान के तहत निघासन पुलिस बल द्वारा आज दिनांक 18.12.2020 को सुबह मुखबिर की सूचना पर जिला बदर अभियुक्त रूप सिंह पुत्र सरवन सिंह निवासी ग्राम गुनाखर टाण्डा मजरा धर्मापुर थाना निघासन जनपद खीरी को बम्हनपुर चौराहे से समय करीब 05:40 बजे गिरफ्तार किया गया है। जिसकी जामा तलाशी से 01 अदद देशी तमन्चा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बरामद हुआ है। गौरतलव है कि दिनांक 07.12.2020 को मा० न्यायालय श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट जनपद खीरी द्वारा 06 माह हेतु जिला बदर किया गया है। मा० न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश का अभियुक्त रूप सिंह द्वारा उल्लंघन किया गया। अतः अभियुक्त रूप सिंह उपरोक्त के विरुद्ध क्रमशः अभियोग पंजीकृत कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग विवरण-

1. मु०अ०सं० 894/2020 धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम रूप सिंह पुत्र सरवन सिंह निवासी ग्राम गुनाखर टाण्डा मजरा धर्मापुर थाना निघासन जनपद खीरी
2. मु०अ०सं० 895/2020 धारा 10 उ०प्र० गुण्डा अधिनियम बनाम रूप सिंह पुत्र सरवन सिंह निवासी ग्राम गुनाखर टाण्डा मजरा धर्मापुर थाना निघासन जनपद खीरी

अभियुक्त का पूर्व आपराधिक इतिहास-

म०अ०सं० 251/2016 धारा 354बी/394/504/506 भादवि थाना निघासन खीरी

पुलिस पार्टी विवरण -

1. उ०नि० राहुल सिंह (चौकी प्रभारी झण्डीराज)
2. हे०का० शिव कुमार सिंह
3. का० जयप्रकाश यादव
4. का० अमर कौशिक

थाना धौरहरा पुलिस द्वारा 3.5 किलो अवैध गांजा सहित 02 अभियुक्तों

को किया गया गिरफ्तार



पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में सम्पूर्ण जनपद में अवैध मादक पदार्थों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 18.12.2020 को थाना धौरहरा द्वारा ग्राम समदहा पुलिया के पास से अभियुक्त निरंजन पुत्र भूरे कंजड़ निवासी ग्राम समदहा थाना धौरहरा खीरी को 2 किलो अवैध गांजा व अभियुक्त महावीर उर्फ छोटे पुत्र नान्हू कंजड़ निवासी समदहा थाना धौरहरा खीरी को 1.5 किलो अवैध गांजा सहित गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में थाना धौरहरा पर एन0डी0पी0एस0 एक्ट की धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों को माननीय न्यायालय भेजा गया।

थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा अवैध 150 ग्राम चरस सहित अभियुक्त जुबेर

को गिरफ्तार किया गया

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध मादक पदार्थों के निर्माण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना मोहम्मदी पुलिस द्वारा अभियुक्त जुबेर पुत्र मो० याकूब लाइन मैन नि० नई बस्ती पूर्वी लकपेड़ा थाना मोहम्मदी जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से कुल 140 ग्राम अवैध चरस बरामद किया गया। उक्त बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु०अ०सं० 937/20 धारा 8/20 एनडीपीएस पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गई।

वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए निम्नलिखित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया-

- थाना भीरा पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 362/18 धारा 147/148/149/307/506/427 भादवि में वांछित अभियुक्तों 1. वारिस अली पुत्र सद्दीक अली 2. जाहिद पुत्र मुखिया नि०गण मदियाना थाना निघासन जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।
- थाना नीमगांव पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 359 धारा 2/3 यूपी गैंगस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्तों 1. बाबूअली पुत्र महिरूम अली नि० पिपेरा थाना नीमगांव 2. नदीम पुत्र जियाउल्ला 3. सोमिन पुत्र जियाउल्ला नि०गण रायपुर थाना नीमगांव जनपद खीरी को गिरफ्तार किया गया।

अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोदय खीरी के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण एवं बिक्री के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान विगत 24 घंटे में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए 132 लीटर अवैध कच्ची शराब, 07 अवैध शराब भट्टी बरामद कर 11 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। विवरण निम्नवत है:-

क्र० सं०	थाना	बरामदगी	गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या
1.	थाना फूलबेहड़	42 लीटर	04 अभियुक्त गिरफ्तार
2.	थाना निघासन	20 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
3.	थाना मैगलगंज	20 लीटर	02 अभियुक्त गिरफ्तार
4.	थाना खीरी	15 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
5.	थाना मोहम्मदी	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
6.	थाना धौरहरा	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
7.	थाना मैलानी	10 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
8.	थाना ईसानगर	05 लीटर	01 अभियुक्त गिरफ्तार
	कुल योग	132 लीटर	13 अभियुक्त गिरफ्तार